

SKPM/SEC.DEPT/2020-21 SEPTEMBER 02,2020

To, Bombay Stock Exchange Limited Corporate Relationship Deptt. 1st Floor, New Trading Ring, Rotunda Building, P. J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai-400001

Dear Sir/Ma'am

Scrip Code:500388

SUB : Public Notice of AGM, Book Closure and remote e-voting

Dear Sir,

With reference to above, please find enclosed herewith a copy of public notice for 48th AGM of the Company, Book Closure and Remote e-voting.

We hope you will find the same in order.

Thanking You,

For Shree Krishna Paper Mills & Industries Ltd.

Ritika priyam

Company Secretary & Compliance Officer

Mem No: A53502

Encl: As above

Visit us at: www.skpmil.com

Discoms to get 5 more years forturnaround

UDAY scheme targets in 2015 likely to be extended till 2024-25

New Delhi, 1 September

tate-owned power distribution companies (discoms), which continue to make financial and operational losses, will get five more yearsfor turnaround under the new Reforms-linked Distribution Scheme to be floated by the Centre.

The targets stipulated in 2015 under the UDAY scheme could be extended till 2024-25.

The earlier discoms reform scheme, UDAY, concluded in FY20 with most of the states failing to meet their stipulated targets. The aggregate technical & commercia (AT&C) loss or power supply loss due to inefficient systems was supposed to come down to 15 per cent and average cost-revenue (ACS-ARR) gap of discoms down to zero byFY20.

However, AT&C loss currently stands at 23.9 per cent and costrevenue gap at 0.53 paise per unit, according to the UDAY portal. The numbers are the national average of last available data of all discoms of FY20 and the indicative data of six states during Q1FY21.


In a presentation made during the state power ministers' conference in July, Union ministry officials had said Reforms-linked Distribution Scheme will have the deadline of 2024-25. "The main objectives of the scheme are to improve the reliability and quality of power supply; enhance the financial and operational performance of utilities and reduce AT&C losses to 12-15percentandACS-ARR gaps to zero by 2024-25," he said.

Business Standard has reviewed the minutes of the meeting. The ministry in its presentation stated the funds under the scheme would be released in proportion to the achievementbythediscomsagainst the mutually agreed targets in the action plan. UDAY had similar scheme design wherein funds for schemes and loans by financial institutions were linked to loss reduction of the discoms.



POWER POINTS

rrafit (loss) ~ crore



*Estimated; AT&C: Aggregate technical & commercial losses/power supply loss due

Sources said the scheme could have an estimated capital outlay of ~2-2.5 trillion and would aim at better infrastructure, smartmeters and private franchisee model for improving power supply in the states. "India is embarking on another discoms' reform. The expectation is this new reform will incorporate the learnings from UDAY 1. The need of the hour is to build enough incentives and penalties in the new system to drive the performance on keyparameters," said Mohit Kumar, senior vice-president. IDFC Securities.

This new reformscheme comes at a time when the Centre has already rolled out a special loan scheme for the discoms in lieu of bringing down their losses and dues to the power generating and trans- some areas to franchisees/submission companies which touched licensees at their discretion.

In June, Finance Minister Nirmala Sitharaman, in her

announced a special loan scheme for the discoms at an estimated outlay of ~90,000 crore. To avail of the loan, states would need to clear the dues of government departments to the discoms and give state guaran-

financial andoperational Several states have now cleared their dues and the total dues came down to ~42,131 crore at the end

At the same time, the Union power ministry has introduced amendments to the Electricity Act, 2003, to enable turnaround of discoms. This includes encouraging states to tie up private franchisee for power supply, introduce direct benefit transfer (DBT) of electricity subsidy and phase out crosssubsidy charges levied on industrial consumers.

But several states, including Bihar, Rajasthan, West Bengal, Odisha, and Kerala, have opposed this proposal, citing threat of privatisation and increase in the rates of electricity. Some states also mentioned implementation challenges for DBT in electricity.

The power ministry, however, pointed out that these were only enabling provisions for use by discoms which may want to give out a record high of ~1.11 trillion in July. Officials said DBT in electricity will improve energy accounting and ensure that the discoms get paid for Atmanirbhar Bharat package, the electricity supplied.

SC to decide on moratorium interest waiver is sue today

ARUP ROYCHOUDHURY New Delhi, 1 September

The Centre and the Reserve Bank of India (RBI) informed the Supreme Court on Tuesday that the moratorium on repayment of loans must be extendable to two years under certain conditions. And, the sectors most distressed by the economic slowdown are being identified.

"We are in the process of identifying the distressed sectors as per impact of the hit they have taken, Solicitor General Tushar Mehtatold the three-judge Bench, headed by Justice Ashok Bhushan.

The apex court said it would hear the matter again and decide on Wednesday a bunch of petitions demanding waiver of interest, or waiver of interest on interest on the suspended monthly instalments during the moratorium period.

The Bench was hearing a plea challenging levy of interest on loans during the moratorium period.

The plea, filed by Agra resident Gajendra Sharma, sought a direc-

Microfinance body issues advisory for member firms as moratorium ends

Microfinance Institutions Network (MFIN), an industry association for microfinance companies, on Tuesday said it had issued an advisory to members on engaging with borrowers following the end of the moratoriumon August 31. MFIN said the detailed advisory was a reiteration of points covered in Industry Code of Conduct and Code of Responsible Lending such

transparency, training for employees engaging with borrowers, among several others, and also covered safeguards for Covid-19.

as fair interactions with borrowers, ensuring

tion to declare the portion of the for entire moratorium period but it RBI'sMarch27notificationassomething beyond the bank's legal power on interest by banks. or authority. That is, to the extent that interest on the loan amount charged during the moratorium period creates hardship to the petitioner being the borrower. It creates hindrance and obstruction in 'right to life' guaranteed by Article 21 of the Constitution.

The Supreme Court had observed in June that the question is not of waiver of complete interest

is limited only to interest charged

It had also observed that the charging of interests by banks during the six-month moratorium 'detrimental'

The RBI, on its part, had submitted that a waiver of interest on loans will impact the financial viability of the country's financial sector. Italso saidbanks could for go about ~2 trillion in interest income

if interests are waived for the six months duration of the moratorium.

On Tuesday, the Solicitor General suggested a meeting of representatives of the finance ministry with the RBI and banks to find

a solution. He also sought more time on behalf of the Centre and requested the Bench to examine the affidavit submitted by the government. The Bench, however, said the final hear-

ing will be on Wednesday. The RBI's circular on personal

loan restructuring says that the resolution plans may include rescheduling of payments or granting of moratorium, based on an assessment of income streams of the borrower, subject to a maximum of two years.

"Correspondingly, the overall tenor of the loan may also get modified commensurately. The moratorium period, if granted, shall come into force immediately upon implementation of the resolution plan," itsaid.

Bank of Maharashtra to put conflict of interest safeguards for loan recast

New Delhi, 1 September

Bankof Maharashtrahasputin safeguards to ensure loans are not restructured in a way that it leads to conflict of interest between borrowers and bank executives, said

managing director and chief execu-

tive officer (MD and CEO) AS Rajeev.

"Our board has approved the loan restructuring policy. The restructuringpowers have been delegated to the next higher authority that had initially sanctioned the loan to that particular borrower. This will ensure that there is no con-

flict of interest involved while scale-II officer, then the restrucsaid in a telephonic interview to Business Standard

Forinstance, if a loan has been approved by a branch manager, a



MD and CEO A S Rajeev says the lender will look at cash flow as a loan-recast proposals

restructuring takes place," Rajeev turing application can only be processed by the senior branch man-

ager who is a scale-III officer. Rajeev said the bank would be

"purely" looking at cash flow as a

recast proposals.

"We have defined all the best practices and processes. The loan restructuring will be strictly based on the Reserve Bank of India (RBI) guidelines and before extending the restructuring benefits, we will verify whether the business of the borrower is really impacted by the pandemic," the chief executive of the banksaid.

The bank estimates that loans worth around ~4,000 crore will be restructured based on a recent stress test. As of June-end, around 23 per cent of the total loan book was under moratorium. It fell to around 17 per cent at the end of August. The bank will conduct another stress test in the first week of September to determine the amount of loans that will require

have asked bank branches to contact borrowers to give applications for restructuring, along with submitting evidence, to prove that the pandemic has impacted them," he said. The bank estimates that around

2-3 per cent of its retail and corporate borrowers each will opt for loan restructuring. The bank has completed restructuring for most MSME accounts (worth ~1,200 crore) according to an already existing scheme and only about another ~200-300 crore worth MSME loans would require restructuring.

He said the bank had a "healthy" capital adequacy ratio of 13.52percentandincaseofworst case scenario, it may reduce by 0.5-0.5 per cent, according to the

Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited CIN - L21012DL1972PLC279773

red Office: 4830/24, Prahlad Street, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi 110 002 E-mail: info@skpmil.com, Website: www.skpmil.com Tel: 91-11-46263200 Fax: 91-11-23266708 NOTICE OF 48[™] ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 48" Annual General Meeting (AGM) of the Members of Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited ("the Company")will be held on Tuesday September 29, 2020 at 10:30 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio visual Means ("OAVM") to transact the business, as set out in the Notice of the AGM only through e-voting facility.
The AGM will be held only through VC / OAVM in compliance with the provisions of the

Companies Act, 2013 and circulars dated May 5, 2020, April 8, 2020 and April 13, 2020 issued by the Ministry of Corporate Affairs and SEBI Circular dated May 12, 2020. Facility or appointment of proxy will not be available for the AGM. The instructions for joining the AGM electronically are provided in the Notice of the AGM. Notice of the AGM along with the Annual Report 2019-20 has been sent on September

01,2020 only through electronic mode to those Members whose e-mail addresses are egistered with the Company or CDSL/ NSDL ("Depositories") and will also be availon the Company's website www.skpmil.com and website of the Stock Exchanges i.e. at Members who have not registered their email addresses and in consequence the Annual

Report including Notice of AGM and e-voting instructions could not be serviced, may get their email address and mobile number registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited, by sending a mail to delhi@linkintime.co.in or shamwant.kushwaha@linkintime.co.in along with scanned copy of the signed copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio for obtaining the Annual Report, Notice of AGM and the

In compliance with the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Secretarial Standard-2 issued by the Institute of Compar Secretaries of India and the MCA Circular, the member are provided with the facility to cast heir vote electronically through remote e-voting (prior to AGM) and e-voting (during the AGM) services provided by Link Intime India Private Limited on all resolution set forth in the Notice of 48th AGM

The Company has engaged the services of Link Intime India Private Limited as the authorized agency for conducting of the AGM electronically and for providing e-voting facility. The remote e-voting period will commence from Saturday, September 26, 2020 (9:00 a.m. IST) and ends on Monday, September 28, 2020 (5:00 p.m. IST). During this period the eligible members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, may cast their vote electronically. The e-voting module will be disabled by Link Intime India Private Limited for voting thereafter i.e. voting shall not be allowed beyond 5:00 p.m. on September 28, 2020. Facility for e-voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend/ participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

The Company has appointed Mr. Manish Kumar Bansal (Advocate), partner of Globiz Partners as Scrutinizer to scrutinize the e-voting procedure at AGM in a fair and

Any person, who acquires shares of the Company and become member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as on the cut-off date, may obtain the logic D and password by sending a request at instameet@linkintime.co.in.

The cut-off date for determining the eligibility of members for voting through remote e-voting and e-voting at the AGM is Tuesday, September 22, 2020. Any person, who becomes a nember of the Company after the dispatch of Notice and holding shares as on cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request to shamwant.kushwaha@linkintime.co.in to cast his/her vote. The detailed procedure for obtaining the login ID and password and exercising e-voting is provided in the Notice of AGM. Members may go through the detailed procedure/instructions for e-voting explained in the notice of the AGM

The results of voting will be declared within 48 hours from the conclusion of AGM i.e on or before October 2 ,2020 and the results so declared along with the consolidate Scrutinizer's report will be placed on the website of the Company www.skpmil.com

In case of any queries or issues regarding e-voting, members may refer the frequently asked questions (FAQs) and Instavote e-voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in under Help section or may contact Mr. Swapan Kuma Naskar, AVP – North India Operations, Link Intime India Private Limited, Telephone No. 011-49411000, email ID: swapann@linkintime.co.inor Contact Ms. Ritika Priyam Company Secretary & Compliance Officer of the Company at the registered office on 011 46263200 or email at info@skpmil.com or cs@skpmil.com who will address the nember's grievances connected.

Notice is also hereby given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with applicable Rules and Regulation 42 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, September 23, 2020 to Tuesday, September 29, 2020, both days inclusive, for the 48"AGM and for determining the entitlement of members for the purpose of AGM for the inancial year ended March 31, 2020.

By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi Date : September 01,2020

Company Secretary Cum Compliance Officer Mem No: A53502

dnal spinning mills limited

Regd. Office: 373, Industrial Area-A, Ludhiana-141003 CIN: L17115PB1980PLC004341 Phone No.: 0161-2600701-705, Fax No.: 0161-2661180 E-mail: secnsm@owmnahar.com, gredressalnsml@owmnahar.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

Notice of AGM: NOTICE is hereby given that FORTIETH ANNUAL GENERAL MEETING (AGM) OF NAHAR SPINNING MILLS LIMITED ("the Company") will be hel on Tuesday, the 29th day of September, 2020 at 11:00 am through video conferencing ("VC") / other audio visual means ("OAVM") in compliance with Section 96 of the Companies Act, 2013 read with MCA Circular No. 20/2020 dated 5th May

Notice of the AGM setting out the Ordinary and Special Business to be transacted thereof together with the Annual Report, inter alia, including the Audited Financial nents for the year ended 31.03.2020, Auditors Reports, Directors Reports will b sent electronically only to those members who have registered their e-mail addresses with the Company/Depository Participant in accordance with the circular issued by Ministry of Corporate Affairs dated May 5, 2020 read with circular dated April 8, 2020 and April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") and SEBI circular dated

Members are hereby informed that Notice of the Meeting and aforesaid documents are available on the Company's website i.e. www.owmnahar.com. The said Notice is also available on the website of CDSL i.e. www.cdslindia.com and website of the Stock Exchanges i.e. National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com and BSE Ltd. at www.bseindia.com.

2. E-voting: Notice is also hereby given pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Rules made thereunder and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that Company i providing facility of remote e-voting and e-voting during the AGM to all shareholders for transacting the Businesses (Ordinary as well as Special) mentioned in the Notice convening 40th Annual General Meeting of the Company.

he communication setting out the procedure for Remote e-voting and e-voting during the AGM, inter alia, containing the User-Id and password alongwith the copy of the Notice convening the AGM will be dispatched to the members. The Company has provided a platform of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com for remote e-voting. The EVSN (E-voting Sequence Number) allotted to the Company by CDSL is 200831060. The members attending the AGM through VC/QAVM facility and who have not cast their vote by remote e-voting are entitled to vote during the AGM via e-voting. A Member may participate in the AGM even after exercising his/her right to vote through Remote e-voting but shall not be entitled to vote again.

Members who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses with the Company can contact the Company Secretary of the Company at gredressalnsml@owmnahar.com for receiving the Notice and Annual Report for casting their vote through remote e-voting or through the e-votin system during the AGM.

The Remote e-voting period shall commence on Saturday, 26th September, 2020 at 9:00 a.m. and close on Monday, 28th September, 2020 at 5:00 p.m. The Remote evoting shall not be allowed beyond the specified date and time and the e-voting Module shall be disabled by CDSL for the e-voting thereafter. Once the vote on a resolution(s) i casted by the member the same cannot be changed subsequently.

A member, whose name appears on the Register of Members or Register of Beneficia Owners on the CUT OFF DATE i.e. 22nd September, 2020, only shall be entitled to avai the facility of Remote e-voting and e-voting during the AGM. Any person, who becomes the member of the company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares on the cut off date i.e. 22nd September, 2020 may obtain the User id and password by sending a request at e-mail gredressalnsml@owmnahar.com Thereafter, he/she will follow the same instructions for voting through electronic mod as mentioned at Note No. 22 of the Notice of the AGM.

In case of any query or issues regarding e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) and e-voting manual available at the www.evotingindia.com under help section and write an e-mail to helpdesk.evoting@cdslindia.com. or contact Mr Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542). In case of any query/grievances related to e-voting, Mr. Brij Sharma, Company Secretary of the Company can be contacted at Registered Office address or through email- gredressalnsml@owmnahar.com and Phone No. 0161

In continuation to our earlier Notice dated 24.08.2020, Members who have not registered/updated their e-mail addresses with the Company can send e-mail to the Company at gredressalnsml@owmnahar.com or to the Registrar of the Company; M/s. Alankit Assignments Ltd. at rta@alankit.com.

he Company shall declare the results of the voting after the counting of the votes an submission of the report by the Scrutinizer and the results shall also be updated or company's website i.e. www.owmnahar.com and on CDSL's website www.cdslindia.com. The results shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges i.e. NSE and BSE

By order of the Board FOR NAHAR SPINNING MILLS LIMITED

DATE: 31.08.2020

BRIJ SHARMA (COMPANY SECRETARY)

India among large EMs set for highest debt burden by 2021, says Moody's

PRESS TRUST OF INDIA

Moody's Investors Service on Tuesday said India would be among the large emerg ing market sovereigns to have highest debt burden by 2021.

The Covid-induced deterioration in growth and fiscal dynamics will leave most large emerging market sovereigns with higher debt burdens over the next few years, it said.

We expect government debt in the large emerging market sovereigns to rise by almost 10 percentage points of GDP on average by the end of 2021, from 2019 levels, driven primarily by wider primary deficits, although some are likely to see higher interest payments contributing to higher debt, Moody's said.

"Debt burdens in Brazil, India, and South Africa will rise to among the highest across the large emerging market sovereigns by

2021," Moody's said. The US-based rating agency said mediumterm growth and fiscal challenges pose downside risks as some of these nations face economic risks and potential revenue shortfalls beyond the immediate shock, given their exposure to commodities, tourism and generally sectors exposed to lasting changes in behaviours, weak global demandand persistently weaker productivity growth.

"Fragile financial systems and/or contingent liabilities compound this risk for India, Mexico, South Africa, and Turkey,' Moody's noted.

It further said in India, increased stress within the financial system, among banks and non-bank financial companies, raises contingent liability risks to the sovereign.

August receives 27% more rainfall, fourth highest in 120 years



Alow-lying area in Prayagraj submerged in flood waters on Tuesday, following heavy rainfall, as water levels of the Ganga and Yamuna rose

PRESS TRUST OF INDIA New Delhi, 1 September

The country received 27 per cent more rainfall than normal in August, the fourth highest amount in the past 120 years, the India Meteorological Department (IMD) said.

The overall rainfall recorded in India from June 1 to August 31 was 10 per cent more than normal, the IMD said on Monday. "August has recorded 27 per cent more rainfall than normal," R K Jenamani, scientist with IMD's national weather forecasting centre, said. "Rainfall recorded in August 2020 is the fourth highest in the last 120 years and highest in 44 years," Jenamani said.

This is also one of the rainiest months of August recorded. The August of 1926 saw 33 per cent more rainfall than normal, the highest pre-

cipitation recorded so far in the month; 1976 recorded 28.4 per cent more rainfall than normal, while the August of 1973 recorded 27.8 per cent than normal. This year saw 27 per cent rainfall.

Mahesh Palwat, vice-president, SkymetWeather, saiddue to formation of five low pressure areas in Bay of Bengalin August, the month recorded excess rainfall. A low pressure area is a cyclonic circulation. It is also the first stage of a cyclone. However, it is not necessary that every low pressure develops into a cyclonic storm.

"Augustsaw unusually high formation of low pressure areas. Of the five, three even reached Gujarat and Rajasthan. One low pressure area intensified into a deep depression, while another developed into a wellmarked low pressure area. This gave good rainfall over Central and East India," said Palawat.

ICAI to set standards for forensic probe

RUCHIKA CHITRAVANSHI New Delhi, 1 September

planning to introduce standards for forensic accounting and investigation by setting quality benchmarks and procedures for activities that would make the collection of evidence withstand high level of legal scrutiny.

"There are a large number of investigations going on and we find that many times forensic reports are not admissible

The Institute of Chartered accounting which do not exist Accountants of India (ICAI) is currently," said Atul Kumar Gupta, president, ICAI.

ICAI will issue draft guidelines by the end of December to invite public comments and also seek views of MCA, Sebi, RBI, CAG, and various investigation agencies as well.

In a statement, ICAI said that these standards would give ICAI members "a good overview of the forensics and investigations, how to under-

in the court of law... This can take projects and assignments would be useful for agencies. be addressed by putting stan- in these areas, how to conclude dard practices in place for such the work completed, and stakeholders to appreciate the finally how to report findings to its stakeholders" "The project of developing

> (this) is an outcome of extensive discussions within the ICAI on the need for the CA community to curtail its dependence on overseas literature and standards, and instead develop its own set of intellectual property along the lines of Atmanirbhar Bharat," said Gupta.

ICAI said these standards

corporates, banks, and other common practices and understand finer nuances of conducting forensic accounting and investigations. "Forensic accounting and investigation professionals will be able to contribute in judicial proceedings as experts."

These standards, ICAI said, will be principle based and stipulate certain basic but mandatory requirements to be fulfilled by members who undertake such assignments.

प्रपत्र बी

टाईपैक लिमिटेड के हिस्सेदारों के ध्यानार्थ

CIN: L34102DL1982PLC129877 पंजीकृत कार्यालय : थर्ड फ्लोर-सिलेक्ट सिटीवॉक, ए-3 डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली - 110017

कार्पोरेट कार्यालय: #96. सेक्टर - 32. गरुग्राम - 122001. हरियाणा फोन: +91 124 4415600

वेबसाइट : www.eichermotors.com ई-मेल : investors@eichermotors.com

उप-विभाजन के अनुसरण में नए शेयर प्रमाणपत्र

जारी करने हेतु सूचना

आयशर मोटर्स लिमिटेड के रू. 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के अपने विद्यमान शेयर

प्रमाणपत्र उनको <u>पंजीकृत डाक</u> द्वारा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कम्पनी के

आयशर मोटर्स लिमिटेड द्वारा, कम्पनी के रू. 10/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के प्रत्येक इक्विटी शेयर का उप-विभाजन रू. 1/- प्रत्येक के अंकित मूल्य के दस (10) इक्विटी शेयरों में करने के लिए शेयरधारकों की ग्राह्मता निर्धारण के उददेश्य हेतू मंगलवार 25 अगस्त, 2020 की रेकार्ड तिथि की अधिसूचना के संबंध में 14 अगस्त, 2020 को प्रकाशित सूचना के क्रम में, भौतिक रूप में शेयरों के धारक सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे

प्रनाराचय जाया <u>जाजकुत क्षान हो</u>ता तिक इंगटाइन शुख्या प्राइपट तिगान्छ, क्षान्या क रिजस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेन्ट ('आरटीए') को नोबल हाइट्स, प्रथम तल, प्लॉट एनएच–2, सी–1, ब्लॉक एलएससी, निकट सावित्री मार्केट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 के पते पर पहचान पत्र तथा पता प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रति के साथ उपरोक्त दस्तावेज प्रेषित करने के पश्चात, शेयरधारकों से "उप–विभाजन के अनुसरण में मूल शेयर प्रमाणपत्रों का प्रेषण" विषय के साथ एक मेल investors@eichermotors.com को भेजने तथा पंजीकृत डाक का ट्रैकिंग नंबर सूचित करने का अनुरोध किया जाता है। उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त होने पर, उनकी सूक्ष्म जांच की जाएगी और ठीक पाए जाने पर रू. 1/- प्रत्येक के नए शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे तथा संबंधित शेयरधारकों को भेजे

जाएंगे। कृपया नोट करें कि कम्पनी शेयरधारकों से, उपयुक्त समझे गए अतिरिक्त दस्तावेज/सूचना, जमा करने को भी कह सकती है। यदि आपको उपरोक्त के संबंध में किसी सहायता की आवश्यकता है, कृपया

कम्पनी/आरटीए से https://www.eicher.in/shareholders-grievances पर दिए विवरण के अनसार सम्पर्क करें।

उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.eichermotors.com पर तथा स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइँट नामतः एनएसई – www.nseindia.com तथा बीएसई – www.bseindia.com पर भी

वास्ते आयशर मोटर्स लिमिटेड

हस्ता./ तिथि : 1 सितंबर, 2020 मनहर कपर

स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा जनरल काउन्सिल एवं कम्पनी सेक्रेटरी

निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्ति की बिक्री कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी 27, जी ब्लॉक, बांद्रा कर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा (ई),

महाराष्ट्रा, पिन कोडः 400051. शाखा कार्यालयः कोटक महिन्दा बैंक लिमिटेड प्लॉट नं. ७, सेक्टर-125, नोएडा-201313

उपलब्ध है।

ऑनलाइन ई-निलामी सम्पत्तियों की ब्रिकी प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियमावली, 2002 के नियम 8 (5) के साथ पठित नियम 9(1)के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों वं प्रतिभूतिकरण एवं पुननिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत निजी संधि के माध्यम से अचल संपत्ति की बिक्री।

क्षार्रात्वाराय ५ पुरानामा तथा क्षार्रापूरा किया जावाचन, 2002 के जनारता जाता साथ के नाव्यन से जनवर निर्माण का एतद्दारा आम जनता तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है, को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित प्रतिमृति ऋणदाता अर्थात कोटक महिंदा बैंक लिमिटेड, के पास गिरवी/चार्जंड अर्थाल संपत्ति जिसका 04.03.2020 को कोटक महिन्द बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा ले लिया गया है, को अंतिम आरक्षित मूल्य पर विचार कर 3.5 करोड़ रू. को निजी संधि के द्वारा बेचा जाएगा। 31.08.2020 तक के बकाये रू. 8,73,19,174/- की वसूली के लिए "जैसा है जहां कर 3.5 करीड़ के. को निजा ताब के द्वारी बचा जांड़ना। 31.00.2020 तक के बचान के. हो हो निजा के स्टूर्शा के एक जित है हैं", जैसा है जो भी है" तथा जो कुछ भी वहां है" आधार पर को बिकी की जायेगी। श्री अमित बॉडवाल, श्रीमती कमला बॉडवाल (उधारकर्ता / सह—उधारकर्ता और दिवंगत श्री रमेश चंदर बॉडवाल के कानूनी उत्तराधिकारी अब मृतक), श्री अजय बॉडवाल और श्री आदित्य बाँडवाल (स्वर्गीय श्री रमेश चंदर बाँडवाल के कानूनी उत्तराधिकारी) अब मृतका और आरबी इंडिन्ट्रियल फेब्रिकेटर्स प्राइवेट लिभिटेड अपने निदेशकों **के माध्यम से**: श्री अजय बाँडवाल और श्री आदित्य बाँडवाल। उक्त अचल संपत्ति को 3,50,00,000 / — (तीन करोड़ पचास ताख रूपए मात्र) रुपये की आरक्षित मूल्य तय करके / 'जैसा है जहां है'', जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर 14 अगस्त, 2020 का ई-नीलामी की गई थीं, कोई बोलीदाता नहीं निकला और कहा कि नीलामी विफल रही।

संपत्ति का विवरणः आवासीय संपत्ति के सभी भाग व अंश नंबर 144 है, मापक्षेत्र 1011.11 वर्ग गज, जो कि सेक्टर 21 ए, फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित है । चौहददीः — उत्तर — सड़क, दक्षिण — प्लॉट नं 145, सेक्टर 21 ए, पूर्व—खाली भूमि, पश्चिम — सड़क स्थानः फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड दिनांकः 01.09.2020

reli/\nce Asset Reconstruction

रिलांयस एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि.

निग्मित कार्यालय : रिलांयस् सेंटर, 6वीं मंजिल, नॉर्थ विंग, ऑफ, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सांताक्रूज (ईस्ट) मुंबई- 400055

कब्जा सूचना (नियम 8(1) (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, रिलांयस एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (आरएआरसी 059 (आरएचडीएफसी एचएल) ट्रस्ट) ने रेलिगेयर डेवलेपमेट फोइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एसाइनमेंट अनुबंध दिनांक 29.03.2019 के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों पर अधिग्रहण किया है। वित्तीय पुरिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवँ पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत व प्रतिभूति हित प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में रिलायस एस्सेट रिकंस्ट्रशन कंपनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 (साठ) दिनों के नीचे वणित राशि के लिए समग्र में सूचना में वर्णित बकाया राशि का भुगतान करने के लिए नीचे वर्णित ऋणी / गारंटरों / गिरवीकर्ताओं को बुलाने के

और ऋणी/गारंटर/गिरवीकर्ता राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतदुद्वारा ऋणी/गारंटरों/गिरवीकर्ताओं और सर्वसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4)

के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में नीचे वर्णित संपत्तियों पर कब्जा ले लिया है। और विशेष रूप से ऋणी / गारंटरों / गिरवीकर्ताओं और सर्वसाधारण को एतदद्वारा संपत्ति के साथ लेन—देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन—देन रिलायस एस्सेट रिकस्ट्रक्शन कंपनी लि. के प्रभार का विषय होगा।

The same same and the same same same same same same same sam							
ऋणी / सह—ऋणियों के नाम	अचल संपत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि	बकाया राशि			
जॉन जोसेफ दास और आशा रानी दोनों निवासी मकान नं, ई-202, खसरा नं, 39 / 2, गंगा विहार एक्सटेंशन, हडबस्त गांव सद्दुल्लाबाद तहसील व परगना लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, यह भी: मकान न4, टाइप-1, अनुसूधी-ए, प्रेजीडेंट एस्टेट रास्ट्रपति भवन के पास, दिल्ली-10004, यह भी: थी / ओ एसासटेक सोल्युशन्य प्रा. लि., तीसरी मंजिल, सेक्टर-44, विल्डिंग नं. 113, गुडगांव हरियाणा-122003	उत्तर प्रदेश के सभी भाग व पासेल	10.02.2020	28/08/2020	रू. 10,32,887.32 /— (रु. दस लाख बत्तीस हजार आठ सो सङ्सठ और पेसे बत्तीस केवल) 12.09.2018 तक 14.50% प्रति वर्ष के ब्याज सहित			
1) प्रवीण कुमार, 2) घनश्याम दास और 3) विनोद कुमार सभी निवासी: #4245 / 46, बाहुजी गली, बहादुर गढ़ रोड दिल्ली—110006 यह भी: फ्लैट नं. एसएफफ—4, एलआईजी, दूसरी मंजिल, जॉट नं. 8, खसरा नं. 185, खुशहाल विहार, गांव—सद्दुल्लाबाद, परगना व तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	संपत्ति बियरिंग फ्लैट नं. एसएफफ —4, एलआईजी, दूसरी मंजिल, छत अधिकारों के साथ, क्षेत्र माप 33.44 वर्ग भी, प्लॉट नं. 8, खसरा नं. 185 में निर्मित,, खुशहाल विहार कॉलोनी के रूप में ज्ञात गांव—सददुल्लाबाद, परगना व तहसील लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के सभी भाग व पार्सल (माप 50 वर्ग यार्ड अर्थात् 41.805 वर्ग मी)	10.02.2020	28/08/2020	ত. 9,15,141.39 / — (रू. नौ लाख पंदह हजार एक सौ इकतालीस और पैसे उनतालीस केवल) 15.02.2019 तक 16.00% प्रति वर्ष के ब्याज सहित			
बाल किशोर विजयपाल और ममता बालकिशोर दोनों निवासी, मकान नं. 4ए, इंद्रगढ़ी 5 डासना, देहात, एमटीएनएल टॉवर के पास, इंद्रगढ़ी, गांव व परमाना इसना, तहसील व जिला गातियाबाद, उत्तर प्रदेश—201302 यह मी: #662, सेक्टर, वसुंघरा, गाजियाबाद	प्लॉट बियरिंग नं. 4ए, माप 41.80 वर्ग मी खसरा नं. 184 में से इंद्रगढ़ी गांव व परगना डासना, तहसील व जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के सभी भाग व पार्सल	10.02.2020	28/08/2020	रू. 10,94,250.00 / — (रु. दस लाख घौरानवे हजार दो सौ पचास केवल) 15.02.2019 तक 18.00% प्रति वर्ष के			

स्थान : गाजियाबाद, उ.प्र. दिनांक : 28.08.2020

उ.प्र. — 201012

वसूली अधिकारी—।, ऋण वसूली न्यायाधिकरण—।।।, दिल्ली कार्यालय 4वीं मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, पटेल चौक, नई दिल्ली—110001 आर.सी. नं. 48 / 2019

दिनांक : 27.08.2020 बैंक व वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993 को देय ऋणों की वसूली के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 के लिए दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत बिक्री की घोषणा एचडीएफसी बैंक बनाम रॉकवेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. व अन्य

बिकी घोषणा

सुश्री रॉकवेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा लि., 121, पहली मंजिल, बीजी—8 पश्चिम विहार, दिल्ली—63 2. पॅंकज, सिंघल, डी—14, अशोका रोड, आदर्श नगर, दिल्ली—33

चूंकि आप प्रमाणपत्र अनुसार देययोग्य ब्याज व लागतों सहित अध्यक्ष अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण दिल्ली द्वारा ओ.ए. 147 / 2018 / डीआरटी—III. दिल्ली में बने वसूली प्रमाणपत्र के संबंध में उनके द्वारा देय **रू. 3.61.66,890.12/- (रुपए तीन करोड़ इकसठ लाख छियासठ हजार आठ सौ नब्बे और पैसे बारह केवल)** की राशि का भुगतान करने में असफल रहे हैं |

और चूंकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रमाणपत्र के संतुष्टिकरण में नीचे समय सारणी में वर्णित वाहनों की बिक्री का आदेश किया है I

और जूंकि सीडी से इसकी वसूली तक 08,02,2018 से 12 प्रतिशत सरल भावी व्याज व पेंडेंट एलाइट के सहित **रु. 3,61,66,890.12/- (रुपए तीन** करोड़ इकसठ लाख छियासठ हजार आठ सौ न**बे और पैसे बारह केवल)** की कुल राशि है।

प्रतिद्वारा सूचित किया जाता है कि किसी भी स्थान की अनुपरिधति में उस वाहने को ई—नीलामी द्वारा 05.10.2020 को दोपहर 3.00 बजे से 4.00 बजे के बीच (बंद होने के बाद 5 मिनट अविध के दिस्तार के साध, यदि आवस्यकता हो) बेची जाएगी और बोली सेवा प्रदाता "ऑनलाइन इलैक्ट्रानिक बोली" द्वारा बैंक नीलामी साइट 1) Cardekho.com प्लॉट नं. 49, सेक्टर 44, ईपीएफओ बिल्डिंग, गुड़गांव, हरियाणा—122001, मोबाइल नं. 9555188873 — www.cardekho.com के द्वारा की जाएगी। संबंधित अधिकारी सुश्री दीपा नेनवाल 2) Cartradeexchange.com दूसरी मंजिल, बेस्ट स्काई टॉवर, नेताजी सुमाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली 110034 फोन नं. 011—42414484, मो नं. 9891438184 संबंधित अधिकारी अनुदीप शर्मा

www.cartradeexchange.com निसत्त विवरण के लिए संपर्क करें: श्री **प्रियांशु कुमार, अधिकारी, सीएच बैंक मोबाइल नं. 9990002354,** संमावित खरीदार वाहनों की जांच के लिए प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। बिक्री उक्तनामित सीडी नं 1 की परिसंपत्ति की बिक्री जैसा कि नीचे वर्णित अनुसूची में दर्शाया गया है और उक्त संपत्ति के साथ संलग्न देयताओं और दावों जो अब तक निर्धारित हुए हैं **व** प्रत्येक लॉट के लिए अनुसूची में वर्णित किए गए हैं।

वाहनों को अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि वसूली की जाने वाली रकम संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से पूरी हो जाएगी तो रिमोइंडर के साथ विक्री को तुरंत रोक लिया जाएगा। नीलामी की कीमत घटा। विर जाने पर भी विक्री को रोका जा सकता है, उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री संचालित कर रहे अधिकारी को सौंपी जाती है या उनके संतोष के लिए

के ऐसे प्रमाण पत्र, व्याज और लागतों का भुगतान अधोहस्ताक्षरी को कर दिया गया है का साक्ष्य इसी अधिकारी को दिया जाता है। सपत्ति की इस बिक्री में कोई अधिकारी या अन्य व्यक्ति किसी ड्यूटी को निभाते समय किसी अभिरूचि प्राप्त करने या इसका प्रयास करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिक्री के साथ कनेक्शन नहीं ला सकता। यह बिक्री आय कर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में निर्धारित शतों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और निम्न शतों के अधीन कार्याचित होगी।

परिशिष्ट अनुसूची में वर्णित विवरणों को अधोहस्ताक्षरी की जानकारी के अनुसार दर्शाया गया है, परंतु अधोहस्ताक्षरी इस घोषणा में किसी भी त्रुटी, गलत विवरण या भूलवश छूटने के लिए जवाबदेह नहीं होगा ।

1. हाइपोथेकेंडिट वाहेंनों का आरक्षित मूल्य निम्नानुसार है

I	क्र.सं.	मॉडल न. एएल४०९ की संपत्तियों का विवरण	इजन न.	चेसिस नं.	आरक्षित मूल्य
l	1	HR38W6692	GFEZ401713G	MB1TRDHD6GRFN4758	6,00,000/-
I	2	HR38W0937	GFEZ402243	MB1TRDHD7GRFN5014	6,10,000/-
I	3	HR38W0702	GFEZ402009	MB1TRDHD4GRFN4919	6,00,000/-
I	4	HR38W9664	GFEZ401682	MB1TRDHD9GRFN5015	6,00,000/-
I	5	HR38W3532	GFEZ400890	MB1TRDHD3GRFN5012	6,10,000/-
I	6	HR38W9376	GFEZ400892	MB1TRDHD1GRFN5011	6,10,000/-
I	7	HR38W3381	GFEZ402244G	MB1TRDHDXGRFN5010	6,10,000/-
I	8	HR38W2696	GFEZ401965	MB1TRDHD0GRFN4917	5,00,000/-
I	9	HR38W7988	GFEZ401712	MB1TRDHD3GRFN4913	6,10,000/-
١	10	HR38W8804	GFEZ423238	MB1TRDHD5GRFN5013	4,75,000/-

 बोली की राशि या बोलीदाता के किसी विवाद के मामले में राशि जिसके लिए बोली बढ़ाई जा सकती है, रु. 25,00,000 / – (रुपए पच्चीस लाख केवल) होगी। लॉट को एक बार फिर से नीलामी के लिए रखा जाएगा। उच्चतम बोलीदाता को किसी भी लॉट का खरीदार घोषित किया जाएगा, उच्चतम बोली को अस्वीकार /स्वीकार करने का निर्णय अधोहस्ताक्षरी के विवेक पर होगा जब भी प्रस्तावित मृल्य पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो, ऐसा करना सलाहयोग्य हो |

पैन कार्ड, पहचान पत्र, पता प्रमाण, ई–मेल आईडी, भोबाइल न और घोषणा यदि वे स्वयं अपनी या अपने अध्यक्षों की ओर से बोली लगा रहे हों, की प्रति। इसके बाद उन्हें अपना प्राधिकरण जमा कराने की आवश्यकता होगी और असफल होने पर उनकी बोलिया अस्वीकार कर दी त, अने निर्धा के नामले में, कंपनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कंपनी के प्रतिनिधि /अटार्नी सुनिश्चित करने वाला कोई आन्य दस्तावेज और फाईल प्राप्ति / काउंटर या ऐसे जमा उक्त तिथि तक ई–मेल या अन्यथा द्वारा उक्त सेवा प्रदाता या सीएच बैंक तक

अनय दस्तावज आर फोइल प्राप्त / कोउंटर यो ऐसे जमा उक्त तिथे तक इन्मल यो अन्यथा द्वारी उक्त सवी प्रदाती यो साएव बक तक पहुंच जाना चाहिए और हॉर्ड कॉर्प **नयूनी अधिकारी—I, डीआरटी—III, नई दिल्ली के समक्ष जमा कराई जानी चाहिए।** वाहन को **'जैसा है जहां है और जो है जैसा है'** के आघार पर बेचा जाएगा। . सफल बोलीदाता उसी दिन बोली के बाद अपनी पूरी राशि जमा करानी होगीं . बिना कोई कारण दिए किसी भी समय नीलामी को अनुचित या स्थगन पाए जाने पर किसी अथवा सभी बोली को स्वीकार या निरस्त करने का

28 अगस्त, 2020 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर के अंतर्गत दिया गया

(संदीप हाडा) वसूली अधिकारी—I डीआरटी—III, दिल्ली

ब्याज सहित

प्राधिकृत अधिकारी

💶 एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड **ए**चबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड

. **चनवाराच** : साह भ: 31, र्सराम **३**१८००्यूर एरिया, सैक्टर—32, गुरूग्राम—122001, हरियाणा **फोन**: +91-124-4675500; **फैक्स**: +91-124-4370985 वेबसाइटः www.hbportfolio.com ई-मेलः corporate@hbportfolio.com

सूचना गरतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली. 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक पंजन की एक बैठक **बुधवार, 09 सितम्बर, 2020** को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, 30 जून, 2020 को समाप्त प्रथम तिमाही हेतु कम्पनी के अ—लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम (पृथक्कृत एवं समेकित) विचारित तथा अनुमोदित किए जाएंगे। यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट

www.hbportfolio.com पर तथा स्टॉक एक्सचेन्ज, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट, www.bseindia.com

कृते एचबी पोर्टफोलियो लिमिटेड दिनेश कपूर तिथि: 01.09.2020 (कम्पनी सचिव स्थान : गुरूग्राम M. No.: FCS-6731

एरिया, सैक्टर—32, गुरुग्राम—122001, (हरियाणा फोन: 0124-4675500, फैक्स: 0124-4370985 ई-मेल : corporate@hbstockholdings.com वेबसाइट : www.hbstockholdings.com सूचना

CIN: L65929HR1985PLC033936

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में एतद्द्वारा गचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल क ज् बैठक **बृहस्पतिवार, 10 सितम्बर, 2020** को आयोजि की जाएगी, जिसमें अन्य के साथ, 30 जून, 2020 को समाप्त प्रथम तिमाही हेत कम्पनी के अ—लेखापरीक्षित न जार ना, निर्मास जन्म के साथ, 30 जून, 2020 व माप्त प्रथम तिमाही हेतु कम्पनी के अ—लेखापरीक्षि त्तीय परिणाम (पृथक्कृत एवं समेकित) विचारित तः अनमोदित किए जाएंगे।

यह सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.hbstockholdings.com और स्टॉक एक्सचेंज(र की वेबसाइट, बीएसई लिमिटेड, www.bseindia.co तथा नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटे www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

कृते एचबी स्टॉकहोल्डिंग्स लिमिटेड तिथि : 01.09.2020 M. No.: ACS-43104

स्थान : गुरुग्राम

प्रपत्र–'जी' अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

दिवाला और शोधन अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता

समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन					
	प्रासंगिक विवरण				
1 कार्पोरेट देनदार का नाम			मैसर्स गोल्डन पीकॉक रैज़िडेंस प्राइवेट लिमिटेड		
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि		27/01/2012		
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है		रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली		
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या		U70109DL2012PTC230637		
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यालय (यदि कोई) का पता	प्रधान	यूनिट नंबर 502, बिल्डिंग डी मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली —110034		
6.	कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता आरं तिथि	भन की	06/11/2019 (प्रमाणित प्रति 11/11/2019 को प्राप्त हुई)		
7.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिरि	थे	02/09/2020		
8.	8. संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों की ग्राह्मता :		विवरण को cirp.goldenpeacock@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है		
9.	9. धारा 29क के अधीन लागू अग्राह्मता के मानदंड :		विवरण www. ibbi.gov.in पर उपलब्ध हैं। आगे के विवरण (यदि कोई हो), cirp.goldenpeacock@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है		
10. अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेत् अंतिम तिथि		म तिथि	18/09/2020		
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूर्ट करने की तिथि	गी जारी	28/09/2020		
12.	अंतिम सूची के बारे में आपित्तियां प्रस्तुत कर अंतिम तिथि	ने हेतु	03/10/2020		
13. संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि			13/10/2020		
 संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि 		т ,	03/10/2020		
15.	समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, संभ सचना ज्ञापन तथा अतिरिक्त सचना के वि	ावित सम् लेए ईमे	माधान आवेदक, सूचना ज्ञापन और अधिक जानकारी प्राप्त करने ल cirp.goldenpeacock@gmail.com के माध्यम से		

अनुरोध भेज सकते हैं : निष्पादित गैर प्रकटीकरण समझौते / घोषणा के बाव हेतुं अनुरोध प्राप्त करने की विधि 16. समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 03/11/2020

. . समाधान प्रोफेशनल बिंतिम सची के संभावित समाधान आवेदक, संकल्प योजना को पंजीकृत / स्पीड पोस्ट को समाधान योजना या कूरियर या व्यक्तिगत रूप से सीलबंद लिफाफे में, समाधान प्रोफेशनल के कार्यालय

			हस्ता/-
23.	प्रपत्र "जी" के प्रकाश	न की तिथि	02/09/2020
			पता: 257, वर्धमान सिटी सेंटर –2, शक्ति नगर रेलवे ब्रिज के पास, नई दिल्ली–110052
22	अतिरिक्त विवरण पर	अथवा के पास उपलब्ध है	समाधान प्रोफेशनल श्री जितेश गुप्ता के पास
21.	पता और ई—मेल, जो पत्राचार के लिए प्रयुव	समाधान प्रोफेशनल के साथ त्त किया जाना है	पता : 257, वर्धमान सिटी सेंटर —2, शक्ति नगर रेलवे ब्रिज के पास, नई दिल्ली—110052 ई—मेल : cirp.goldenpeacock@gmail.com
20.	समाधान प्रोफेशनल व जैसाकि बोर्ड में पंजीब	हा नाम, पता और ई−मेल, बद्ध है	श्री जितेश गुप्ता पता : 257, वर्धमान सिटी सेंटर –2, शक्ति नगर रेलवे ब्रिज के पास, नई दिल्ली –110052 ईं–मेल : jitesh@jkgupta.com
		का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर 	श्री जितेश गुप्ता पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00144/2017-18/10380
	योजना प्रस्तुत करने :		30/11/2020
	सापन का विध	में प्रस्तुत कर सकता है ।	

257, वर्धमान सिटी सेंटर –2, शक्ति नगर रेलवे ब्रिज के पास, नई दिल्ली–110052 स्थान : नई दिल्ली श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड

मैसर्स गोल्डन पीकॉक रैजिडेंस प्राइवेट लिमिटेड के समाधान प्रोफेड पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00144/2017-18/10380

सीआईएन : L21012DL1972PLC279773 **पंजी. कार्यालय :** 4830 ∕ 24. प्रहलाद स्टीट, अंसारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली−110002 ईमेलः info@skpmil.com, वेबसाइटः www.skpmil.com **फोन नं.** : 91-11-46263200, फैक्स : 91-11-23266708

48वीं वार्षिक साधारण बैठक, रिमोट ई-मतदान जानकारी और बुक क्लोजर की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('कंपनी'') के सदस्ये की 48वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) केवल ई-मतदान सुविधा के माध्यम से एजीएम की सूचना में यथाउल्लिखित व्यवसाय के निष्पादन हेतु मंगलवार, 29 सितंबर, 2020 को सुबह 10:30 बजे वीडियो कान्फ्रेंसिंग(''वीसी'') / अन्य ऑडियो विजअल जरिए (''ओएवीएम'') के माध्यम आयोजित की जायेगी। रीएम कंपनी अधिनियम २०13 और कारपोरेट कार्य मंत्रालय दारा जारी सामाना परिपन्नों दिनां मई. 2020. 8 अप्रैल. 2020 और 13 अप्रैल. 2020 और सेबी परिपन्न दिनांकित 12 मई. 2020 व अनुपालन में केवल वीसी/ओएवीएम माध्यम से आयोजित की जायेगी। एजीएम के लिए प्रॉक्सी नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इलैक्ट्रोनिक रूप में एजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश एजीएम की

रजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 सदस्यों जिनके ई–मेल आईडी कंपनी या सीडीएसएल एनएसडीएल (''डिपोजिटरी'') में पंजीकृत हैं, को केवल इलैक्ट्रोनिक माध्यम से 01 सितंबर, 2020 को भेज दिए गए हैं और ये कंपनी की वेबसाइट www.skpmil.com और स्टॉक एक्सचेंज अर्थात

www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे। सदस्य जिन्होंने अपने ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किए हैं और फलस्वरूप एजीएम की सूचना और ई–मतदान निर्देश सहित वार्षिक रिपोर्ट नहीं भेजी जा सकी है, वे वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई-मतदान निर्देश प्राप्त करने के लिए ईमेल आईडी, मोबाइल नं., स्व-सत्यापित पैन प्रति और इलैक्ट्रोनिक फोलियो की अवस्था में क्लाइंट मास्टर प्रति और भौतिक फोलियो की अवस्था में शेयर सर्टीफिकेट की प्रति देते हुए अनुरोध पत्र की हस्ताक्षरित प्रति की स्कैण्ड प्रति के साथ delhi@linkintime.co.in य shamwant.kushwaha@linkintime.co.in पर ईमेल भेजकर कंपनी रजिस्टार और शेयर टांसफ एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया पाईवेट लिमिटेड के पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकत क

कंपनी (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली. 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम. 2013 क धारा 108, यथासंशोधित और और सेबी (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएं) नियमावली, 2015 अनुपालन में, 48वीं एजीएम की सूचना में बताये सभी संकल्पों पर लिंक इनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्रदत्त रिमोट ई-मतदान (एजीएम से पूर्व) और ई-मतदान (एजीएम के दौरान) सेवाओं के माध्य . से डलैक्टोनिक रूप में मतदान करने की सुविधा सदस्यों का प्रदान की गई है।

कंपनी ने इलैक्ट्रोनिक रूप में एजीएम संचालन और ई-मतदान सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकृ एजेंसी के रूप में लिंक इनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड की सेवाएँ ली हैं। रिमोट ई-मतदान अवधि शनिवार, 26 सितंबर, 2020 (पर्वा, 09:00 बजे भा.मा.स.) को शरू होगी और सोमवार, 28 सितंबर, 2021 (अप. 05:00 बजे भा.मा.स.) को समाप्त हो जायेगी। इस अवधि के दौरान भौतिक रूप या अभौतिक रू में शेयर धारक कंपनी के पात्र सदस्य इलैक्ट्रोनिक रूप में अपना मतदान कर सकते हैं। इसके बाद मतदान के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ई–मतदान मॉड्यूल निष्क्रिय कर दिया जायेगा अर्थात 28 सितंबर 2020 समय अप 5:00 बजे के बाद मतदान की अनमति नहीं होगी। एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों और जिन्होंने पहले मतदान नहीं किया होगा, को ई-मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध करायी जायेगी। सदस्य जो एजीएम से पूर्व रिमोट ई—मतदान से अपना मतदान कर चुके होंगे वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित/भाग ले सकते हैं किंतु वे दुबारा मतदा के लिए पात्र नहीं होंगे।

कंपनी ने एजीएम में ई-मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए श्री मनीष कुमा बंसल (एडवोकेट), ग्लोबिज पार्टनर्स के भागीदार को संवीक्षक नियुक्त किया है।

यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर अधिगृहीत करता है औ कंपनी का सदस्य बनता है और कट–ऑफ तिथि को कंपनी का शेयरधारक होता है, instameet@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं रिमोट ई-मतदान माध्यम से मतदान और एजीएम में ई-मतदान के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारण व लिए कट-ऑफ तिथि मंगलवार, 22 सितंबर, 2020 है। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सचना प्रेषण व बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि को कंपनी का शेयरधारक होता है, वे अपने मतदान के लिए shamwant.kushwaha@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई–मतदान करने की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। सदस्य एजीएम की सूचना में बताए ई–मतदान के लिए विस्तृत प्रक्रिया / निर्देश देखें।

मतदान के परिणाम एजीएम समाप्त होने के 48 घंटों के अंदर अर्थात 2 अक्टूबर, 2020 तक घोषि किए जायेंगे और ये घोषित परिणाम समेकित संवीक्षक रिपोर्ट के साथ कंपनी की वेबसाइट www.skpmil.com पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

ई-मतदान संबंधी कोई पूछताछ या समस्या की अवस्था में सदस्य https://instavote.linkintime.co.ir पर हेल्प सेक्शन के तहत उपलब्ध फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ("एफएक्यू") और इंस्टावोट ई—मतदान नुअल देखें या श्री स्वपन कुमार नास्कर, एवीपी– नॉर्थ इंडिया ऑपरेशन्स, लिंक इनटाइम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड, फोन नं. 011—49411000, ईमेल आईडी: swapann@linkintime.co.in को संपर्क करे या कंपनी की कंपनी सचिव व अनुपालन अधिकारी सुश्री रितिका प्रियम को पंजीकृत कार्यालय 011—46263200 पर या ईमेल info@skpmil.com या cs@skpmil.com पर संपर्क करें जो सदस्य

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि लागू नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 व विनियम 42 के अनुसार कंपनी का सदस्य रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण बही 48वीं एजीएम उददेश्य और 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एजीएम उद्देश्य हेतु सदस्यों की पात्रता निर्धारण हेतु बुधवार, 23 सितंबर, 2020 से मंगलवार, 29 सितंबर, 2020, दोनों दिन शामिल, तक बंद रहेंगे।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 01 सितंबर, 2020

हिते श्री कृष्णा पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड रितिका पिय कंपनी सचिव सह अनुपालन अधिकारी सदस्यता सं: ए५३५०३

निदेशक मंडल के आदेशानसा

ओमैक्स ऑटोस लिमिटेड

पजी. और निगमित कार्या : प्लॉट नं बी-26, इस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर-32,

गुङ्गाव, हरियाणा—122001 CIN: L30103HR1983PLC026142, Website: www.omaxauto.com Email: investors@omaxauto.com, Phone: +91-124-4343000, Fax: +91-124-2580016 37वीं वार्षिक आम बैठक की सदस्यों को सूचना

कोविड—19 महामारी के चलते, निगमित मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') ने जारी परिपत्र र क्रमशः 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, और 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 (''एमसीए परिपत्रों'') के तहत कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक स्थिति के बिना वीडियो क्रॉफ्रेंसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो / वीडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') सुविध द्वारा वार्षिक आम बैठक एजीएम) आयोजित करने की अनुमत दी है। कंपनीज अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') और उसके अतर्गत बने नियमों के प्रावधानों, सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और एमसीए परिपत्रों व साथ पठित सेबी (सचीबद्ध देयताओं व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में कॉमन स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वार शुक्रवार, 25 सितंबर, 2020 को सुबह 10.00 बजे कंपनी की 37वीं एजीएम आयोजित किए जाने

का निर्णय लिया है। सूचीबद्ध विनियमों के प्रावधानों और एमसीए परिपन्नों के तहत, ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 37वीं एजीएम से जुड़ने के लिए लॉग इन विवरण के सहित 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की 37वीं सूचना ई-मेल द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी य रजिस्ट्रार व शेयर इस्तांतरण एजेंट (आरटीए) या उनके संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागी (यों) वे साथ पंजीकृत हैं | सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ही 37वीं एजीएम मे और भाग ले सकते हैं। एजीएम से जुड़ने के निर्देश उ7वीं एजीएम सूचना में दिए गए हैं वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा भाग लेने वाले सदस्यों की गिनती अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम को पूरा करने के लिए की जाएगी। 37वीं एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट

कंपनी की वेबसाइट www.omaxauto.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है | कंपनी ने 37वीं एजीएम की सूचना में वर्णित सभी प्रस्तावों पर अपने वोट डालने के लिए अपने सभी सवस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के लिए विस्तत निर्देश 37वीं एजीएम की सूचना में

दिए गए हैं। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्य और जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ई–मेल पते कंपन या आरटीए के साथ पंजीकृत नहीं किए हैं, वे delhi@linktime.co.in पर कंपनी के रजिस्ट्रार शेयर हस्तांतरण एजेंट. लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अनरोध भेजकर ई-वोटिंग सहित वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम से जुड़ने के लिए लॉग इन विवरण और 37वी एजीएम, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति के लिए अपने ई—मेल पते रजिस्टर कर सकते हैं य अपने ई—मेल पते रजिस्टर करने के लिए सपोर्ट में अपना नाम, फोलियो नं., शैयर प्रमाणपञ् (आगे व पीछे), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैनड प्रति और आधार कार्ड प्रदान कर investors@omaxauto.com पर कंपनी के कंपनी सचिव से संपर्क कर सकते हैं । अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य जिनके ई—मेल पते रजिस्टर नहीं हैं, उनसे अपने डीपी द्वारा दी गई सलाह अनुसार केवल अपने डीपी के साथ ई-वोटिंग सहित वीसी / ओएवीएम के माध्यम एजीएम से जुड़ने के लिए लॉग इन विवरण और 37वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्ति के लिए अपने ई–मेल रजिस्टर कराने का अनुरोध है। पंजीकृत ई–मेल पता भावी संचार भेजने के प्रयोग किए जा सकते हैं।

. अन्य एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर रखने वाले और कंपनी का सदस्य बनने वाले और कट—ऑफ डेट अर्थात् शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020 तक शेयर रखने वाले व्यक्ति 37वीं एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार निर्देशों का पालन कर लॉग इन आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं जो कंपनी की वेबसाइट www.omaxauto.com और रटॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है ।

की ओर से व उन्हीं के लिए ओमैक्स ऑटोस लिमिटेड हस्ता. /-संजीब कुमार सुबुधी कंपनी सचिव

Call 022 4027 5432 or SMS reachbs to 57575 or email us at order@bsmail.in

अपनी प्रति के लिए

11 दावा जमा करने अंतिम तिथि

बेहतर बिजनेस वो. जो आपकी भाषा में हे

शिवालिक मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

दिनांक : 31.08.2020

स्थान : गुड़गांव

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण (''सरफाएशी अधिनियम'' तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में वैंकिंग विनियम अधिनियम . 1949 के अर्थों में शिवालिक मर्केटाइल को–ऑपरेटिव बैंक लि. बैंकिंग कम्पनी, पंजीकृत पता 13/1207, अंसारी रोड, सहारनपुर–247001 (उ.प्र.) तथ मुख्य कार्यालय दूसरी मंजिल, 5ए एवं 5बी, फ्यूजन स्क्वेयर, सेक्टर 126, नोएडा का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कर्जदार/रों/पक्षों से कथित माँग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना जारी की थी। निम्नलिखित कर्जदार/रों/जमानती/यों/बंधककर्ता के राशि के पुनर्भुगतान में असफल होने के कारण, कर्जदार/रों/जमानती/यों/बंधककर्ता तथा जनसामा-को एतद्वारा सचना दी जाती है कि कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयो में अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

प्रतिभृत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय–सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों कं ओर आकष्ट किया जाता है।

नीचे उल्लिखित कर्जदार/रों/जमानती/यों/बंधककर्ता को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सम्पत्तियों के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी र जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार अनुबन्ध दर पर भावी ब्याज एवं प्रतिस्थापित ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों तथा प्रभार आदि सहित शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।

कर्जदार(रों)/जमानती(यों)/बंधककर्ता(ओ) का नाम	अचल सम्पत्तियों का विवरण	माँग सूचना की तिथि तथा राशि
		कब्जा करने की तिथि एवं खाता सं.
1. श्री सुम्न कुमार (कुर्जदार एवं बंधककर्ता) पुत्र विनोद मंडल निवासी ग्राम		
सदरपुर, सेक्टर ४५, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र201302	मीटर, खसरा नं. 237 मिन, ग्राम मोरती, परगना-	
2. श्री अमन कुमार (सह-कर्जदार) पुत्र विनोद मंडल, निवासी ग्राम सदरपुर,		
सेक्टर 45, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र201302	स्थित। आस्तियों/सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : 19 फीट चौड़ी	
3. संजीव कुमार ठाकुर (जमानती) पुत्र पूरन ठाकुर निवासी जलपुरा, तहसील		
दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र201306.	दक्षिण : अशोक शर्मा का प्लॉट, माप सम्पत्ति के स्वामी :	खाता स. : 101941001809
	श्री सुमन कुमार	
1. श्री प्रवीण (कर्जदार) पुत्र गिरीश चन्द्र निवासी : मकान नं. 644, खेड़ा		
धर्मपुरा छपराला, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र201009, 2. श्रीमती मुन्नी देवी		
(सह-कर्जदार एवं बंधककर्ता) पत्नी गिरीश चन्द्र निवासी : मकान नं. 644,		
खेड़ा धर्मपुरा छपराला, गौतम् बुद्ध् नगर, उ.प्र201009, 3. श्री गिरीश चन्द्र		(रुपये तीन लाख सत्तर हजार छः सौ
(जमानती) पुत्र राम चन्द्र, निवासी : मकान ्नं. 644, खेड़ा धर्मपुरा छपराला,		चौंतीस एवं अठहत्तर पैसे मात्र)
गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र201009, ४. श्री नरेश (जमानती) मकान नं. 644,		खाता सं. : 101541006444
खेड़ा धर्मपुरा छपराला, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र201009		
श्री दीपक कुमार नायक (कर्जदार एवं बंधककर्ता) पुत्र भास्कर चन्द्र नायक,		
निवासी : म.नं. 168, ग्राम जलपुरा, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र		
201306, 2. श्रीमती प्रवासी नायक (सह-कर्जदार) पत्नी दीपक कुमार नायक,		
निवासी : म.नं. 168, ग्राम् जलपुरा, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र		
201306, 3. श्री विजय चौधरी (जमानती) पुत्र रामा कान्त चौधरी निवासी :		
म.नं. 106, ग्राम जलपुरा, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र201306		खाता सं. : 101941002366
1. श्री गायत्री मदन पत्नी श्री अजय मदन (कर्जदार एवं बंधककर्ता) निवासी		
ः म.नं. ४६४, हकीकत नगर, पंजाबी बाग, सहारनपुर, उ.प्र247001, 2. श्री		
अजय मदन पुत्र श्री कृष्ण लाल मदन (सह-कर्जदार), निवासी : म.न. 464,		
हकीकत नगर, पंजाबी बाग, सहारनपुर, उ.प्र247001, तथा 3. श्री राजेश	अचल आस्ति/यों सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : दुकान नं. 61	(रुपये दो लाख इकसठ हजार आठ

कुमार जग्गी पुत्र जोगिन्दर पाल जग्गी, निवासी 963/1, शारदा नगर, एवं 62, पश्चिम : दुकान नं. 59, उत्तर : दुकान नं. 51 सौ अङ्तीस एवं सत्तर पैसे मात्र) सहारनपुर, उ.प्र.-247001 तथा 52, दक्षिण : 20'-0" चौड़ी सड़क। माप सम्पत्ति के खाता सं. : 100941004791 स्वामी : गायत्री मदन श्री गायत्री मदन पत्नी श्री अजय मदन (कर्जदार एवं बंधककर्ता) निवासी फ्रीहोल्ड वाणिज्यिक दुकान क्षेत्रफल 11.14 वर्ग मीटर, म.नं. 464, हकीकत नगर, पंजाबी बाग, सहारनपुर, उ.प्र.-247001, 2. श्री एमपीएल सं. 12/2198 का भाग, दुकान नं. 60, मोहल्ला कब्जा करने की तिथि : 27.08.2020

अन्य मन्तु पुत्र के कि क्षाचित ने एत (सह-कर्जवर), निवासी: म.नं. 464, आनन्द नगर, अनावाला रोड, जिला सहारनपुर, उ.प्र., बकाया राहे प्र. 4,86,101.06 हकीकत नगर, पंजाबी बाग, सहारनपुर, उ.प्र.,–247001, तथा 3. श्री मनीष अचल आस्तित्यों सम्पत्ति की सीमाएँ : पूर्व : दुकान नं. 6. 1 (रुपये चार लाख छियासी हजार एक कुमार गनेजा पुत्र श्री महेन्द्र पाल (जमानती), निवासी अर्पित विहार, एवं 62, पश्चिम : दुकान नं. 59, उत्तर : दुकान नं. 51 सी एक एवं छः पैसे मात्र) सहारनपुर, उ.प्र.–247001 वौड़ी सड़क। माप सम्पत्ति के खाता सं. : 100941009580 स्वामी : गायत्री मदन एवं अजय मदन

कृते शिवालिक मर्केन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अधिकृत प्राधिकार्र दिनाक : 01.09.2020 स्थान : नोएडा

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड (नि.प.सं.एल 29222 डीएल 1976 पीएलसी 008129) पंजीकृत कार्यालय : कोर-2, पहली मंजिल, "रकोप मीनार", प्लॉट नं.2ए व 2बी, लक्ष्मी नगर ज़िला केन्द्र, दिल्ली-110 091.

प्रधान कार्यालय : "निकर्षण सदन", एच.बी.कोलनी मेन रोड, सीतम्मधारा, विशाखपट्टणम-530 022. ई-मेल : sreekanth@dcil.co.in, दूरभाष : 0891-2523250, फैक्स : 0891-2560581, वेबसाइट : www.dredge-india.com



सेवाएँ :

♦ निर्माणगत निकर्षण

♦ निर्वाहगत निकर्षण ♦ तट पोषण

♦ भूमि उद्धार ♦ परियोजना प्रबंधन परामर्श ♦ उथले जलीय निकर्षण ♦ समुद्री निर्माण दिनांक ३० जुन, २०२० को समाप्त तिमाही संबंधी स्वतः अपरीक्षित वित्तीय परिणामों का सार

					(रुपये लाखों में)
क्र. सं.	विवरण	दिनांक 30-06-2020 को समाप्त तिमाही	दिनांक 31-03-2020 को समाप्त तिमाही	दिनांक 30-06-2019 को समाप्त तिमाही	दिनांक 31-03-2020 को समाप्त वर्ष
1.	प्रचालनों से कुल आय	16745.48	22761.85	19648.51	74968.93
2.	इस अवधि के लिए निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के पहले)	1177.43	269.60	147.82	1341.56
3.	इस अवधि के लिए कर-पूर्व निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	1177.43	269.60	147.82	1341.56
4.	इस अवधि के लिए कर-पश्चात् निवल लाभ/(हानि) (अपवादात्मक और/या असाधारण मदों के बाद)	1145.40	(438.21)	81.99	551.32
5.	इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय (इस अवधि के लिए (कर-पश्चात्) लाभ/हानि और अन्य व्यापक आय (कर-पश्चात्) से युक्त)	1145.40	(438.21)	81.99	551.32
6.	ईिकटी शेयर पूँजी	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00
7.	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकित आरक्षितियों को छोडकर)				
8.	निवल मूल्य				154224.39
9.	प्रति शेयर आमदनी (ई.पी.एस.)(रुपयों में)				
	(क) मूल	4.09	(1.57)	0.29	1.97
	(ख) फीका	4.09	(1.57)	0.29	1.97

उपर्युक्त विवरणी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (अनिवार्यताओं और प्रकटन की अपेक्षाओं संबंधी सूचीकरण) वेनियम, 2015 के विनियम 33 और विनियम 52 के अंतर्गत शेयर बाजारों के सम्मुख फाइल किए गए तिमाही वित्तीय परिणामों के वेस्तृत प्रपत्र का सार है । इसका पूरा प्रपत्र शेयर बाजारों के वेब-साइटों - <u>www.nseindia.com, www.bseindia.con</u> ww.cseindia.com और इस कम्पनी के वेबसाइट www.dredge-india.com में उपलब्ध है ।

स्थान : विशाखपट्नम दिनांक : 31-08-2020

कृते ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ़ इण्डिया लिमिटेड ह०/- (राजेश त्रिपाठी) प्रबंध निदेशक

मंण्डल के आदेश से

टाईपैक लिमिटेड 1 निगमित कर्जदार का नाम निगमित कर्जदार के गठन की तिशि 15/01/1988 प्राधिकारी जिनके अधीन निगमित गरओसी-टिल्ली कर्जदार का गठन/पंजीयन किया गया 4 निगमित कर्जदार का कॉरपोरेट आईडेंटिटी नम्बर U74950DL1988PLC030332 मख्य कार्यालय (यदि कोई है) का पता दिवालिया समाधान की प्रक्रिया बंद 31/08/2020 गिमित कर्जदार के परिसमाप 01/09/2020 आरम्भ होने की तारीख

दिल्ली. सेंटल दिल्ली. डीएल-110001. भारत परिसमापक के रूप में कार्यरत दिवालिया ब्रिज नंद कालरा पेशेवर का नाम एवं पंजीयन संख्या बोर्ड के साथ पंजीकृत परिसमापक ब्रिज नंद कालरा बी-01, बेस्टेक पार्क भियू आनंद सेक्टर-81 . गरुग्राम-122004 (हरियाणा) ईमेलः bnkalra1954@gmail.com

किया जाने वाला पता एवं ईमेल

40, हनुमान लेन, फ्लैट नं. 4, कनॉट प्लेस, नई पंजी. सं. IBBI/IPA-003/N-00014/2017-18/10103

ब्रिज नंद कालरा बी-01, बेस्टेक पार्क भियू आनंदा, सेक्टर-81, गुरुग्राम-122004 (हरियाणा) ईमेलः bnktaipackltd@gmail.com 30/09/2020 एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण 31/08/2020 को ।संहिता की धारा 33 के अधीन परिसमापन के आदेश पारित करने की तारीखा टाईपैक

िनिपिटेड के परिसमापन आरम्भ करने का आदेश जारी किया है। टाईपैक लिमिटेड के हिस्सेदारों को एतद्दारा परिसमापक के पास मद 10 में उल्लिखित पते पर दिनांक 30/09/2020 [परिसमापन आरम्म होने की तारीख से तीस दिन को पड़ने वाली तारीख] को अथवा उससे पहले अपने दावों के साक्ष्य जमा करने को कहा जाता है।

वित्तीय ऋण्याताओं को अपने दावों के साक्ष्य सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा करना होगा। अन्य समी ऋण्यातागण अपने दावों के साक्ष्य व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा कर सकते हैं।

तारीख: 02.09.2020 परिसमापक का नाम एवं हस्ताक्षर: ब्रिज नंद कालरा पंजीयन सं. IBBI/IPA-003/N-00014/2017-18/10103

E kotak

बिज़नेस स्टैंडर्ड